

# दिल्ली पब्लिक स्कूल, जम्मू

सत्र (2024-2025)

नाम - \_\_\_\_\_

अनुक्रमांक - \_\_\_\_\_

कक्षा - दूसरी।

महीना - अप्रैल

विषय - भाषा संचार और साक्षरता कौशल

दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

सुबह उठकर व्यायाम करने से हमारा शरीर निरोग रहता है। व्यायाम कई तरह से किया जा सकता है जैसे- सैर करना, दौड़ना, तैरना, साइकिल चलाना, योग करना। सुबह बगीचे या पार्क में सैर करनी चाहिए। इससे हमें ताज़ी हवा मिलती है। ताज़ी हवा हमारे शरीर और दिमाग की शक्ति को बढ़ाती है।

प्र०१. सुबह उठकर व्यायाम करने से क्या होता है ?

उ. \_\_\_\_\_

---

प्र०२. रिक्त स्थान भरिए

क) ताज़ी हवा हमारे शरीर और दिमाग की \_\_\_\_\_ को बढ़ाती है।

ख) \_\_\_\_\_ भी व्यायाम है ।

प्र०३. वाक्य बनाएँ :

क) सुबह - \_\_\_\_\_

ख) पार्क - \_\_\_\_\_

प्र०४. मात्राओं का प्रयोग करके एक- एक शब्द बनाइए :


१. इ ( ि ) \_\_\_\_\_

२. औ ( ौ ) \_\_\_\_\_

प्र०५. चित्र वर्णन

सहायक सूची की मदद से दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए:

बगीचा , फूल, बच्चे, हरी घास, इंद्रधनुष, तालाब, बतख, सुंदर



---

---

---

---

---

---